

## सराहनीय कार्य दिनांक 04.07.2021

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी यातायात पुलिस/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:-04-07-2021 को जनपदीय पुलिस एवं यातायात पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 384 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 187 वाहनों का चालान कर ₹ 1,65,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया।

## प्रेस नोट दिनांक:- 04.07.2021

थाना लोटन पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त, 03 बोरी डाई खाद, 01 बोरी यूरिया खाद, 01 अदद मोटरसाइकिल व 02 अदद सायकिल के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2021 को तस्करी रोकथाम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोटन पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को 03 बोरी डाई खाद, 01 बोरी यूरिया खाद, 01 अदद मोटरसाइकिल व 02 अदद सायकिल के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आमीन पुत्र जुम्मन साकिन हरिवंशपुर थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
2. श्यामसुंदर चौधरी पुत्र संतु चौधरी ग्राम राजपुर बुजुर्ग थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज।
3. राम सुभाग चौधरी पुत्र हरिशंकर चौधरी साकिन बस्तियां थाना मुहाना जनपद सिद्धार्थनगर।

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. का. आशीष चौरसिया थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।
02. का० राहुल गुप्ता थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

**प्रेस नोट दिनांक:- 04.07.2021**

**थाना लोटन पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 100 लीटर नेपाली डीजल के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया ।**

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक लोटन श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2021 को तस्करी रोकथाम व क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए लोटन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सारूख खान पुत्र अजीजुल्लाह खान साकिन ठोठरी बाजार थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को 100 लीटर नेपाली डीजल के साथ धारा 11 कस्टम अधिनियम में गिरफ्तार कर मय माल कस्टम कार्यालय ककरहवा भेजा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. सारूख खान पुत्र अजीजुल्लाह खान साकिन ठोठरी बाजार थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-**

01. उ.नि. राम अशोक यादव प्रभारी चौकी हरिवंशपुर थाना लोटन।
02. का. संजीव कुमार थाना लोटन ।
03. का० अनील यादव थाना लोटन ।

**सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04-07-2021**

**जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर वृक्षारोपण कर परिसर की साफ-सफाई की गयी ।**

प्रदेश में हरित क्षेत्रफल में वृद्धि के मद्देनजर 01 से 07 जुलाई, 2021 तक आयोजित होने वाले “वन महोत्सव“ के अवसर पर आज दिनांक 04.07.2021 को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के अवसर पर श्री अनिल कुमार सागर, मण्डलायुक्त बस्ती मण्डल, श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा मनरेगा स्मृति उद्यान ग्राम सेमरियांव, ..... जनपद सिद्धार्थनगर में फलदार एवं छायादार पौधों का वृक्षारोपण कर हरित व स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया ।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशानुसार जनपद के समस्त थाना, चौकी, अग्निशमन परिसर में प्रभारियों के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों द्वारा भी भारी संख्या में पौधे लगाकर हरित व स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया तथा साथ ही साथ परिसर की साफ-सफाई भी की गई ।

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04-07-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 01 लोग के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय एवं प्रभारी थानाध्यक्ष मिश्रौलिया श्री अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में

दिनांक 04/07/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक पक्ष के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण - शान्ति व्यवस्था भंग

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. गोपाल पुत्र गामा

साकिन भैसहवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर।

\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-हे0का0 सुरेश चंद्र गिरी

2- का0 विशाल पासवान

## सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04-07-2021

“शांति व्यवस्था भंग करने वाले 06 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही”

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर श्री सुरेश चंद्र रावत के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी इटवा श्री रमेश चंद्र पाण्डेय एवं प्र0नि0 श्री ज्ञानेंद्र कुमार राय थाना इटवा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04/07/2021 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने व शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 06 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 151/107/116 सीआरपीसी की निरोधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

विवाद का कारण -

पुरानी रंजिश को बच्चों बच्चों की बात को लेकर आमदा फौजदारी होना

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

01. अवध राम गौतम पुत्र बुधई 02. हनुमान गौतम पुत्र अवध राम गौतम

03. राजमन पुत्र अवध राम

04. कन्हैयालाल गौतम पुत्र अवध राम गौतम

05.गोविंद गौतम पुत्र कन्हैयालाल गौतम समस्त सकीनान परसा बुजुर्ग थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

6.अब्दुल गफ्फार पुत्र मोहम्मद अवदान ग्राम बेला थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01- उप निरीक्षक श्री कौशल कुमार पांडे

02.उपनिरीक्षक श्री कन्हैयालाल मौर्या

03. हेड कांस्टेबल विजय कुमार यादव

04.कांस्टेबल बृजेश गौड़

### सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04-07-2021

शान्ति व्यवस्था प्रभावित करने वाले 02अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा श्री राणा महेन्द्र प्रताप सिंह क्षेत्राधिकारी,सदर के कुशल निर्देशन में व श्रीकृष्ण देव सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना को0 सि0नगर पुलिस टीम द्वारा कृत कार्यवाही -

आज दिनांक 04.07.2021 को थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था कायम रखने व संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के दृष्टिगत 02 अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 151/107/116 सीआरपीसी में माननीय न्यायालय / जेल भेजा गया व थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से खाना होकर कोविड-19 व लाकडाउन के दृष्टिगत थाना हाजा के विभिन्न चौराहो व तिराहो सिद्धार्थ तिराहा, बांसी स्टैण्ड, हैडिल तिराहा, सनई चौराहे पर टीम बनाकर कोविड-19 की रोकथाम हेतु व लाकडाउन के दृष्टिगत मास्क व वाहनो का चेकिंग किया गया व व्यक्तियों से कोविड-19 रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देते हुये निर्धारित गाइड लाइन का पालन करने हेतु बताया गया व बताया गया कि आप लोग लाकडाउन में अपने घर ही रहे घर से बाहर न निकले ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम, पता-

1- राजकुमार पुत्र हरीशचंद्र

2- रामसुरेश पुत्र रामकरन निवासी ग्राम बिनैका थाना व जिला सिद्धार्थनगर

गिरफ्तारी/चालान करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1- उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय प्रभारी चौकी जेल थाना कोतवाली सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

2- उ0नि0राकेश त्रिपाठी

3- का0 धीरज यादव

चौकी जेल थाना को0 सिद्धार्थनगर, जनपद सिद्धार्थनगर ।

### सराहनीय कार्य जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 04-07-2021

थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से एक नफर अभियुक्त को धारा 60(63) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चंद रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ढेबरुआ श्री दिनेश चंद चौधरी के नेतृत्व में आज दिनांक 04.07.2021 को धारा 60(63) आबकारी अधिनियम के तहत अन्तर्गत एक अभियुक्त को मु0अ0सं0 139/21 धारा 60(63) आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. वीरेंद्र पुत्र भग्गन साकिन रामनगर थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर बरामदगी का विवरण-20शीशी नेपाली देशी शराब अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. उप निरीक्षक श्री अमित कुमार थाना ढेबरुआ जनपद

02. हे0का0 सुरेन्द्र यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

03. का0 रविन्द्र यादव थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर